

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
 सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 7]

दिल्ली, अप्रैल 5—अप्रैल 11, 2019, बृहस्पतिवार/ चैत्र 15—चैत्र 21, 1941

No. 7]

DELHI, APRIL 5—APRIL 11, 2019, THURSDAY/CHAITRA 15—CHAITRA 21, 1941

भाग—II-II

PART-II-II

सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं

Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में

(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)

कंपनी याचिका संख्या 297/2016

कंपनीज अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा

निम्नलिखित के मामले में

एवेरडिगम कॉर्प. तथा अन्य

... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

एस. जी. इंटरप्राइजेज तथा इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

... प्रतिवादी

याचिका का विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) 434 (1) (अ) तथा 439 के साथ पठे माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा तिथि 26.02.2016 में उपरोक्त प्रतिवादी कंपनी की समाप्ति तथा (वाइंडिंगअप) हेतु एक याचिका एवेरडिगम कॉर्प. #1203, बुलिम लायंस वैली II, 680, गासन - डांग , जुमचेव-गुसीओल 153-803, कोरिया तथा कोरिया ट्रेड इंड्योरेंस कारपोरेशन ,14 ,जौंगनो-गु, 11-729, सीओल, साऊथ कोरिया जो कि प्रतिवादी कंपनी के लेनदार हैं, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी।

माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 10.09.2018 सी.पी. संख्या 297/2016 में शासकीय समापक को कंपनी के अंतिम परिसमापक नियुक्त किया है और याचिका का विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। याचिका में सुनवाई की अगली तारीख 13.05.2019 के लिए तय की गई है।

कोई लेनदार, अंशदायी अथवा अन्य व्यक्ति कथित याचिका में समर्थन या आपत्ति का इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति स्वयं की इच्छा की सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करनी चाहिए तथा इस प्रकार सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् 13.05.2019 से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं पहुंचना चाहिए तथा उक्त प्रयोजन हेतु स्वयं व्यक्ति रूप में अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए। याचिका की एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त लेनदार तथा अंशदायी को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध की जाएगी।

कोई शपथ पत्र याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छुक न्यायालय में निर्धारित सुनवाई तिथि से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देना चाहिए।

हस्ता./-

(डी. के. सिंह)

शासकीय समापक

दिल्ली उच्च न्यायालय

8 वां तल, ए विंग लोक नायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली, 110003

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 2019

दूरभाष- 011-24693393

[विज्ञापन ए/II/II/34/18]

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

(ORIGINAL COMPANY JURISDICTION)

COMPANY PETITION NO. 297/2016

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF:

EVERDIGM CORP. & ANR.

...PETITIONER

VERSUS

SG ENTERPRISES & EQUIPMENTS PVT. LTD.

...RESPONDENT

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition under Section 433 (e) 434 (1) (a) and 439 of the Companies Act, 1956 for the winding up of the above Respondent Company by the Hon'ble High Court of Delhi on 26.02.2016, was presented to the Hon'ble High Court by the Everdigm Corp., #1203, Woolim Lion's Valley II, 680, Gasan-Dong, Geumcheon-Gu Seoul, 153-803, Korea, and Korea Trade Insurance Corporation, 14, Jongno-gu, 110-729, Seoul, South Korea, creditors of the Respondent Company.

The Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 10.09.2018 passed in C.P. No. 297/2016 appointed the Official liquidator as the provisional liquidator of the company and directed the Official Liquidator to publish the advertisement of petition. The next date of hearing in the said petition is fixed for 13.05.2019 at 10.30 A.M.

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the undersigned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address,

so as to reach the undersigned not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition i.e. 13.05.2019 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Sd./-

(D.K. SINGH)

OFFICIAL LIQUIDATOR

ATTACHED TO THE HON'BLE HIGH
COURT OF DELHI, 8th FLOOR, A WING,
LOK NAYAK BHAWAN, KHAN MARKET,

PLACE : NEW DELHI

NEW DELHI-110 003.

DATED : 2019

PH. NO. 011-24693393.

[ADVT. A/II/II/34/18]